

Bhargava to Musahari P.M.G.S.Y Road

F.D.R

Schedule XLV Form No. 134.

JHANJHARPUR

DIVISION

MADHEPUR

SUB-DIVISION

1805

Measurement Book

INDEX	PAGE
<p>प्रमाणित किया जाता है कि          भाषी बुद्धि से मनीन द्वारा          अंकित 100% ने हृजा लधयक          अभियंता लघुत्तम की निर्मित          किया जाता है।</p>	 <b>कार्यपालक अभियंता</b> प्राप्तीण कार्य विभाग बांझारपुर <i>Mukund</i> ०३/०३/२१

INDEX	PAGE
<p>प्रमाणित किया जाता है कि          भाषी बुद्धि से मनीन द्वारा          अंकित 100% ने हृजा लधयक          अभियंता लघुत्तम की निर्मित          किया जाता है।</p>	 <b>कार्यपालक अभियंता</b> प्राप्तीण कार्य विभाग बांझारपुर <i>Mukund</i> ०३/०३/२१

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
C-H - FDR					

Name of Work :- Repair of flood damage road from Bhagwati to mushari P.M.G.S.Y road under FDR in madha Pur Block.

Agency :- Departmental

Date of measurement Entry :- 10/5/14

Authority :- S.E.T.A. Letter No:- 934 06/5/24

(2) Excavation for road work in soil with hydraulic excavator including cutting loading and trimming bottom etc - - - .

at comp. b.

$$1 \times 30.00 \times 4.00 \times 0.45 = 54.00 \text{ m}^3$$

$$2 \times 60.00 \times 5.00 \times 0.40 = 240.00 \text{ m}^3$$

$$6 \times 30.00 \times 5.00 \times 0.40 = 360.00 \text{ m}^3$$

$$1 \times 18.00 \times 5.00 \times 0.40 = 36.00 \text{ m}^3$$

$$690.00 \text{ m}^3$$

$$@ Rs 68.70/\text{m}^3 \quad \text{Rs } 47,403 = 00$$

$$\text{Add } 12\% \text{ G.S.T.} \quad \text{Rs } 5688 = 00$$

$$\text{Add } 1\% \text{ L.C.} \quad \text{Rs } 474 = 00$$

$$\text{Add S.F.} \quad \text{Rs } 2402 = 00$$

Continuation  
Rs 55,967 = 00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① P/V and laying of brick bats With carriage by tractor etc					
----- all complete.					
1 x 16.00 x 3.00 x 0.60	= 28.80	m <sup>3</sup>			
2 x 30.00 x 4.00 x 0.45	= 108.00	m <sup>3</sup>			
1 x 15.00 x 4.00 x 0.45	= 27.00	m <sup>3</sup>			
6 x 30.00 x 3.50 x 0.60	= 378.00	m <sup>3</sup>			
1 x 18.00 x 4.00 x 0.60	= 43.20	m <sup>3</sup>			
					585.00 m <sup>3</sup>
@ Rs 1867.76 /m <sup>3</sup>					Rs 1092,640 = 0.0
Add 12% G.S.T					Rs 1,31,117 = 0.0
Add 1% L.C.					Rs 10926 = 0.0

Add S.F. - 186 = 0

Rb 12,96,869 = 00

1

Total cost (2+1) = Rs 13,52,836/-

3  
30/9/21  
2c  
Am  
10.05 A  
21  
2c  
21  
2c  
21  
2c

### Continuation